



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 164] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 29, 1981/वैशाख 9, 1903

No. 164] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 29, 1981/VAISAKHA 9, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1981

सा.क्र.नि. 318 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (14वां संशोधन) नियम, 1981 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 2 के खण्ड (2) (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ख) नमक के संबंध में, नमक आयुक्त, और उसके अन्तर्गत किसी भी पूरे राज्य में अथवा उसमें विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र में इन नियमों के अधीन कलक्टर की किसी भी शक्ति का प्रयोग करने वाला कोई अपर कलक्टर और नियम 4 या 5 के अधीन विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी ;” ।

[अधिमूचना सं. 110/81-के.उ.शु./पत्र सं. 208/15/81-सीएक्स 6]

डी. मेहता, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 1981

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 316(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (14th Amendment) Rules, 1981.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For clause (ii)(B) of rule 2 of the Central Excise Rules, 1944. the following shall be substituted, namely :—

“(B) in relation to salt, the Salt Commissioner,

and includes an Additional Collector and any officer specially authorised under rule 4 or 5 to exercise throughout any State or any specified area therein all or any of the powers of a Collector under these rules ;”.

[Notification No. 110/81-CE/F. No. 208/15/81-CX. 6]

D. MEHTA, Under Secy.